

RACL Geartech Limited

Corporate Office

B-9, Sector-3, Noida, Uttar Pradesh-201301, INDIA

Phone: +91-120-4588500 Fax: +91-120-4588513

Web: www.raclgeartech.com E-mail: info@raclgeartech.com

November 8, 2023

The Manager- Listing BSE Limited 25th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai-400001, Maharashtra

Scrip Code: 520073

Subject: Newspaper Clippings of Unaudited Financial Results for quarter and half year ended September 30, 2023

In compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith copies of unaudited results published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspaper. Copies of the said advertisement are also available on the website of the Company at www.raclgeartech.com.

Request to kindly take this intimation on record.

Thanking You,

Yours Faithfully

For RACL geartech Limited

Neha Bahal

Company Secretary & Compliance Officer





FINANCIAL EXPRESS



RACL Geartech Limited

Regd. Office: 15th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019 (India) Tel No.: 011-66155129 | Fax No.: 0120-4588513 Email: investor@raclgeartech.com | Website : www.raclgeartech.com CIN: L34300DL1983PLC016136



EXTRACT OF THE STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023

		0011001			T.	071110		h except EPS)
		CONSO	LIDATED				ALONE	
Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year to date Figures	Previous Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Year to date Figures	Previous Year ended
	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2023	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2023
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	103.14	90.21	192.76	367.34	103.14	90.21	192.76	367.34
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)		13.16	25.32	51.42	13.62	13.15	25.27	51.33
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	THE STREET	13.16	25.32	51.42	13.62	13.15	25.27	51.33
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)		9.87	18.97	37.43	10.20	9.86	18.98	37.45
Total Comphrehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)		9.73	18.83	37.15	10.13	9.74	18.84	37.16
Equity Share Capital	1078.16	1078.16	1078.16	1078.16	1078.16	1078.16	1078.16	1078.16
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	*	-	15669.72	-	-	*	15670.44
Earnings Per Share (Face value Rs. 10/- each)(For continuing and discontinued operations) Basic and diluted	10.000	9.15	17.59	34.72	9.46	9.15	17.60	34.74

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated financial results for the quarter ended 30th September, 2023 filed with the stock exchange i.e. BSE Limited under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated quarterly financial results are available on Company's Website i.e. www.racigeartech.com and on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com

The detailed Unaudited Standalone and Consolidated financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2023 and this extract as reviewed and recommended by the Audit Committee, were approved and taken on record by the Board of Directors of the company at its meeting held on 07th November, 2023 and a "Limited Review" had been carried out by the Statutory Auditors of the company of the said financial results for the guarter ended 30th September, 2023

Date: November 07, 2023

Place: Noida

For and on behalf of Board of Directors **RACL Geartech Limited Gursharan Singh** Chairman & Managing Director

(₹ in Lakhs except per share data)

Overder and ad Overder and ad Overder and ad Unit Year and ad



ASIAN ENERGY SERVICES LIMITED

CIN: L23200MH1992PLC318353

Regd OfficeooB Offikar Esquare, Chunabhatti Signal, Eastern Express Highway, Sion (East), Mumbai – 400 022, Maharashtra, India

Tel. No.: 022-42441100 E-mail: secretarial@asianenergy.com • Website: www.asianenergy.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Half Year ended	
Particulars	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
Total income from operations (net)	4,548.41	4,601.99	2,492.97	9,150.40	
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	120.05	(301.60)	(1,294.52)	(181.57)	
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	120.05	(301.60)	(1,901.37)	(181.57)	
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	119.33	(303.47)	(1,888.03)	(184.16)	
Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	153.04	(153.34)	(1,880.85)	(0.32)	
Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- per share)	3,863.78	3,769.37	3,769.37	3,863.78	
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous years)		5	(5)		
Earnings Per Share of ₹ 10/- each (before and after extraordinary items) Basic : (in ₹)	0.28	(0.81)	(5.01)	(0.53)	
Diluted: (in ₹)	0.28	(0.81)	(5.01)	(0.53)	
lotes: 1. Key standalone financial information is given below:	the second	1000 and 200 and	Alba Turk Abrila	(₹in Lakhs)	
	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Half Year ended	

	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Half Year ended	
Particulars	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
Income from operations	4,548.41	4,601.99	2,492.98	9,150.40	
Profit / (Loss) before tax	68.31	(243.46)	(1,047.60)	(175.15)	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	68.31	(243.46)	(1,256.10)	(175.15)	
Total Comprehensive income for the period, net of tax.	69.31	(228.52)	(1,241.77)	(159.21)	

2. The above Consolidated Financial Results were reviewed and recommended by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 6th November, 2023.


3. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter ended 30" September, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2023 are available on the Stock Exchange websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website viz. www.asianenergy.com.

By order of the Board Asian Energy Services Limited

Place: Mumbai Date: 6th November, 2023

Kapil Garg Managing Director

DIN: 01360843



Place: Lucknow

Date: 07.11.2023

INDIA PESTICIDES LIMITED

CIN No.: L24112UP1984PLC006894

Regd. Office: 35-A, Civil Lines, Bareilly - 243 001, Uttar Pradesh, India. Tel:+91 0581 2567459 Corporate Office: Water Works Road, Swarup Cold Storage Compound, Aishbagh, Lucknow - 226 004, Uttar Pradesh Tel: +91 0522 2653602 Email: investor@indiapesticideslimited.com Web: www.indiapesticideslimited.com

	EXTRACT OF FOR THE QUA	UNAUDITED C				100	Rs. in Crore)
SI. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1. 2.	Total Income from operations Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	201.97 26.52	201.44 21.19	250.66 50.12	403.41 47.70	469.12 104.74	884.94 191.64
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	26.52	21.19	50.12	47.70	104.74	191.64
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	19.50	15.52	37.21	35.01	78.32	143.24
5.	Total comprehensive income for period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	19.60	15.61	37.02	35.20	78.00	143.52
6. 7.	Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52 761.63
8.	Earning Per Share (Face Value of Rs. 1 each) (Not annualised)						
	1. Basic 2. Diluted	1.70 1.70	1.36 1.36	3.23 3.23	3.06 3.06	6.80 6.80	12.46 12.46

	SUMMARY OF KEY	STANDALONE UN	AUDITED FIN	ANCIAL RES	ULTS IS AS FO	LLOW:	(Rs. in Crore)
SI. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1. 2. 3. 4.	Total Revenue from Operations Profit before tax Profit after tax Total Comprehensive Income	201.97 26.88 19.83 19.93	201.44 21.62 15.91 16.00	250.66 50.82 37.90 37.70	403.41 48.50 35.74 35.93	469.12 105.70 79.28 78.96	884.94 193.05 144.48 144.76

Notes: (1) The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter and half ended September 30, 2023 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 6 November 2023, and subjected to limited review by statutory auditors and filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results is available on the website of the Company, (www.indiapesticideslimited.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) respectively.

The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("IND AS") prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (as amended). For and on Behalf of the Board

of India Pesticides Limited

Anand Swarup Agarwal Chairman DIN No. 00777581

CAMAC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Read, Office: I"Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 Corporate Identity Number: L70109DL1980PLC169318 Phone: - 7303495374, E-Mail- camaccommercial@gmail.com, Website -www.camaccommercial.com Extract of Unaudited Financial Results

> for the Quarter and Half year ended September 30, 2023 (Rupees in Lakhs except per share data)

			otanu	alone		
		Quarter Ended	Half year ended	Quarter Ended	Year ended	
Sr. No.	Particulars	Sept 30, 2023 Unaudited	Sept 30, 2023 Unaudited	Sept 30, 2022 Unaudited	March 31, 2023 (Audited)	
1.	Total income from operations	45.12	104.60	38.13	343.41	
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional items)	17.55	(38.60)	(42.97)	140.65	
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	17.55	(38.60)	(513.07)	(329.45)	
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax and Exceptional items	17.77	(37.86)	(503.69)	(329.25)	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2,148.77)	(1,050.94)	13,697.62	14,976.80	
6.	Equity Share Capital	88.28	88.28	88.28	88.28	
7.	Other Equity			200000000000000000000000000000000000000	1,73,162.50	
8.	Earnings per share of Rs 10 each (a) Basic (Rs) (b) Diluted (Rs)	2.01 2.01	(4.29) (4.29)	(57.06) (57.06)	(37.30) (37.30)	

The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their respective meetings held on November 07, 2023. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the quarter

and half year ended September 30, 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results of the Company are available on the website of the Company and has also been sent to The Calcutta Stock Exchange Limited on November 07, 2023.

By Order of the Board For Camac Commercial Co. Ltd. (Monisha Saraf)

Director

4. Debensor Referention Reserve * Restated refer nate no. 7

Place : New Delhi

Date : November 06, 2023

DIN: 07503642

Place: New Delhi Date: November 07, 2023

Regd. Office: 'Rasoi Court', 20, Sir R.N.Mukherjee Road, Kolkata-700 001 Tel.: (033) 22480114/5, E-mail:investors@jlmorison.com, Website:www.jlmorison.com NOTICE OF POSTAL BALLOT

J.L.Morison (India) Limited

CIN: U51109WB1934PLC088167

NOTICE is hereby given to the members of J. L. Morison (India) Limited that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and such other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and as may be enacted hereinafter), the Company seeks approval of the members by way of a special resolution to advance loan(s), give guarantee(s and provide security(ies) in terms of Section 185 of the Companies Act, 2013 as set out in the postal ballot notice dated 25th September, 2023 ("Notice" either by physical ballot form or remote e-voting.

Copies of the Postal Ballot Notice, containing the explanatory statement along with the Postal Ballot form/ e-voting instructions have been sent to all the members whose names appear in the register of members/ list of beneficial owners as received from Depositories as on close of business hours on Friday, 27th October, 2023, i.e. the cut-off date, by way of (a) e-mail to those members whose email IDs are registered with the Company, RTA/Depository Participant(s), and (b) physical copies along with self-addressed prepaid envelope to all other members at their registered address through the permitted mode. The dispatch of the Postal Ballot Notice was completed on 07° November, 2023. The Postal Ballot Notice and form is available on the Company's website www.jlmorison.com and the website of the National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com

A member holding share in physical/demat form may cast vote either by physical ballot form or remote e-voting. The Company has appointed NSDL as an agency in respect of remote e-voting for the postal ballot. For casting the vote through postal ballot form, members are required to read carefully the instructions mentioned in the Notice and printed overleaf in the Postal Ballot Form. Members are requested to note that the voting process through Postal Ballot form and remote e-voting will commence from 9.00 a.m. on Wednesday. 8th November, 2023 and will end at 5.00 p.m. on Thursday, 7th December, 2023 The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter. Members may send the Postal Ballot Form duly completed in all respects in the selfaddressed, postage prepaid reply envelope enclosed along with the Notice so as to reach the Scrutinizer on or before 5.00 p.m. on Thursday, 7th December 2023. Postal Ballot Forms received after that date will be strictly treated as i reply from such member has not been received and will stand as invalid. The voting rights of the members / beneficial owners shall be reckoned as on the cut-off date i.e. Friday, 27th October, 2023. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only. Members who do not receive the Postal Ballot notice may apply to the Company and obtain a duplicate thereof.

The Board of Directors of the Company has appointed CS Mohan Ram Goenka, Practicing Company Secretary (FCS No.: 4515/ CP No.: 2551) Partner, MR & Associates, Practicing Company Secretaries, Kolkata, as the scrutinizer for conducting the postal ballot process in accordance with law in a fair and transparent manner ("Scrutinizer").

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company or to any other Director authorized by him, who shall declare the results of the Postal Ballot. The results of the postal ballot will be announced at the registered office of the Company on or before 6.00 p.m. of Friday, 8th December, 2023. The results along with the Scrutinizer's Report will be displayed at the Registered Office of the Company and uploaded on the website of the Company www.jlmorison.com as well as on the website of NSDL.

Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for Members available at the download section of NSDL website at www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to or contact Ms. Prajakta Pawle, Executive, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400013, at e-mail id evoting@nsdl.co.in. Further queries relating to remote e-voting or voting through postal ballot may also be addressed to Mr. Sohan Sarda, Executive Director, Rasoi Court, 20, Sir, R N Mukherjee Road, Kolkata - 700001, email: investors@jlmorison.comphone No. (033) 22480114/5.

In case of any queries regarding remote e-voting, you may refer the Frequently

For J. L. Morison (India) Limited

Place: Mumbai Date: 7th November, 2023

Sohan Sarda **Executive Director** DIN:00129782

VENKATESHWARA INDUSTRIAL PROMOTION CO. LTD CIN No: L65909WB1981PLC033333 1, LU SHUN SARANI, TODI MANSION, 2ND FLOOR,

ROOM NO. 2A, KOLKATA-700 073 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR 2ND QUARTER AND HALF YEAR **ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2023** Rs. Lacs except EPS Quarter | Corresponding Previous

PARTICULARS	ending	3 months ended in the previous year	Year ended	
9	(30/09/2023)	(30/09/2022)	(31/03/2023)	
otal income from operations(net)	108.73	392.06	3,191.03	
let Profit/ (Loss) from Ordinary Activities				
ftertax	28.63	2.68	61.76	
let Profit/ (Loss) for the period after tax				
after Extraordinary items)	28.63	2.68	61.76	
Equity Share Capital	5,024.00	5,024.00	5,024.00	
Reserves (excluding Revaluation				
Reserve as shown in the balance sheet				
f previous year)	_	_	_	
Earning Per Share (of Rs. 10/-each)				
Basic	0.057	0.005	0.123	
Diluted	0.057	0.005	0.123	
NOTE:				

Requirements) Regulations, 2015. For and behalf of Board VENKATESHWARA INDUSTRIAL PROMOTION CO. LTD

Name: NIKHIL CHANDRA SAHA Place: Kolkata **Designation: Managing Director** DIN NO. 08392229 Date: 07.11.2023

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure

smc finance

MONEYWISE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

CIN: U51909DL1996PTC353582 REGD. OFFICE: 11/68, 2nd Floor Shanti Chamber, Pusa Road New Delhi Central Delhi DL 110005 IN Phone No : 011-30111000 | email : nbfccare@smcfinance.com | website : www.smcfinance.com Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and

Half Year Ended September 30, 2023 **Ouarter Ended Half Year Ended** Year Ended PARTICULARS Nomber 38, 2023 June 34, 2825 September 30, 2027 September 38, 2023 September 30, 2023 Harris 31, 2023 (Speedfool) (Speedfool) (Decedfool) (Managlood) (Decedfool) (Auditor) 4,613.58 4,259.28 2,802.08 5,553.21 5,947.65 13,118,13 Net Profit for the period. 1,372.87 1,360.73 1.19630 2,733.88 2,305.90 4,713.56 Net Profit for the period before Tax 2,733.94 (after Exceptional Items) 3,614.40 . Net Profit for the period after Tax 3.302.40 1,103,65 196.29 2.213.05 1,757.00 1,115.78 893.88 2,250.31 1,747,28 3,652.94 period (Coreprising Profit (after tex) and 4,365,60 4,365,68 4,385.69 4,365,68 Page Walse of 7 50 each! 39,339,39 17,659.18 40,406.31 37,669,18 39,590.72 Fold up Debt Copisal / Outstanding Debt 67,893,55 36,603,32 Dutetasking Redeemable Preference I. Debt Equity Ratio 1.58 1.66 0.96 t. Earnings per share (BRS) (in 4) (b) Division EPS. 2.54 2.53 2.08 5.06 6.03 1 Capital Redemption Reserve

The above financial results have been prepared in apportance with the requirements of Regulation 52 of the SER (Listing Obligations & Disclosure Rules, 2015 as a mended by the Companion (Indian Accounting Standards), Rules, 1916 as a mended by the Companion Accounting Standards), Rules, 1916 as a mended by the Companion Accounting Standards, Rules, 1916, prescribed under section 113 of the Companion Accounting the Arty road with relevent nuise, the puriods and the other accounting principles generally accounted in India. Any application guidance / clarification / directions the SBBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015 as amended by September 7, 2021 for the period orded September 16, 2023 are The above it an extract of the detailed format of quarterly and half your ended francial results filed with the Stack Exchanges under Regulation SJ of the SEDI

Cutting and Other Discinuate Requirements; Regulations, 2015. The full format of the quarterly and half year ended Prential results are emiliable on the Investor Conner Section of Our vectorite www.prictinance.com. For the other the items referred in Regulation S2 (4) of the SES (Listing and Other Disclosure Regularments) Regulations, 2015, the partitions disclosure

All the secured listed unlisted) non-convertible debinitures of the Company and fully secured by enclusive charge, of hypothecation by beek debta/lead which is sufficient to discharge the principal, interest accountlibureen and such other sums as mentioned therein

> For and on behalf of the Board ad/-Himanchu Gupta (Director & Chief Executive Officer) (DIN:03187614) sd/-Ajay Garg (DIN:00003166)

PATBACK BUSINESS LIMITED

CIN: L74999DL1984PLC018747 Regd Off: Shop No. 325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center,

Sector-14, Rohini, New Dellhi-110085 | Ph No: 011-27860681 Email id: crazypricingdel@gmail.com | Website: www.patback.in **Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results**

For the Quarter and half year ended September 30, 2023

(₹ in Lakh) Quarter | Quarter | Half Year Ended Ended Ended Particulars 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2023 Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) Total income from operations 373.65 32.21 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 3.54 27.41 (1.54)Net Profit / (Loss) for the period before tax (1.54)(after Exceptional and/or Extraordinary items) 3.54 27.41 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (1.54)3.54 21.32 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) 21.32 and other Comprehensive Income (after tax)] 3.54 24.80 Equity Share Capital 24.80 24.80 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year) 73.14 8.99 73.14 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results are available on the website of the Company i.e (www.patback.in) and website of the stock Exchange(s) (www.msei.in).

The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 07th Nov. 2023.

The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS)

as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Indi-as rules (As amended). For and on behalf of the Board of Directors of

Patback Business Limited Pawan Kumar Mittal (Director)

1.43

1.43

8.59

8.59

(0.62)

(0.62)

DIN: 00749265

LENDINGKA₹T

(for continuing and discontinued operations) -

LENDINGKART FINANCE LIMITED

Simplifying MSME Finance

CIN: U65910MH1996PLC258722 Registered Office: Unit Number PS 40 and PS 41, 3rd Floor, Birla Centurion, Pandurang Budhkar Marg, Worli Mumbai - 400030

Date: 07.11.2023

Place: New Delhi

1. Basic

2. Diluted

Phone: +91-79-4913 2800 | Email: lendingkartfinance@lendingkart.com | website: https://lendingkartfinance.com

STATEMENT OF UNAUDITED IND AS FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023. (Amount: ₹ in Lakhs except EPS)

Corporate Office: 401, 4th Floor, Iconic Shyamal, Nr. Shyamal Cross-Roads, Ahmedabad - 380 015

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended September 30, 2023 (Unaudited)	Quarter Ended June 30, 2023 (Unaudited)	Quarter Ended September 30, 2022 (Unaudited)	Half year Ended September 30, 2023 (Unaudited)	Half year Ended September 30, 2022 (Unaudited)	Year Ended March 31, 2023 (Audited)
l.,	Total Income from Operations	29,434.41	23,018.19	18,926.23	52,452.60	36,662.45	80,288.93
	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	3,892.58	3,426.10	3,857.40	7,318.68	7,129.17	15,530.26
	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	3,892.58	3,426.10	3,857.40	7,318.68	7,129.17	15,530.26
(6)	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	2,912.13	2,562.60	2,862.62	5,474.73	5,311.28	11,565.74
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,907.79	2,537.97	2,865.40	5,445.76	5,309.28	11,571.08
91	Paid up Equity Share Capital	4,418.79	4,418.79	4,418.79	4,418.79	4,418.79	4,418.79
+	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	74,418.48	71,105.43	60,932.33	74,418.48	60,932.33	68,247.84
ļ.,	Securities Premium Account	67,246.84	67,246.84	67,246.84	67,246.84	67,246.84	67,246.84
	Networth	78,837.27	75,524.24	65,351.12	78,837.27	65,351.12	72,666.63
0	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	2,08,718.74	1,85,768.69	1,68,794.36	2,08,718.74	1,68,794.36	1,68,024.17
1.	Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
2	Debt Equity Ratio	2.65	2.46	2.58	2.65	2.58	2.31
13.	Earnings Per Share (Face value of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (Not Annualised) 1. Basic: 2. Diluted:	6.59	5.80	6.48	12.39	12.02	26.17
4.	Capital Redemption Reserve	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Debenture Redemption Reserve	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
6.	Debt Service Coverage Ratio	NA:	NA.	NA.	NA	NA	NA
7.	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA.	NA	NA	NA	NA

#-Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules.

 The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results are available on the website of the Stock Exchange (https://www.bseindia.com) and on the Company's website (https://lendingkartfinance.com).

On behalf of the Board of Directors of Lendingkart Finance Limited

Place : Mumbai Date: November 07, 2023

New Delhi

b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange (BSE Ltd) and can be accessed on the URL (https://www.bseindia.com).

 Accounting principles and policies followed are in line with March, 2023 and there is no change in such principles and policies during the quarter and half year ended on September 30, 2023.

Harshvardhan Lunia

Chairman & Managing Director DIN: 01189114

financialex

GDL LEASING AND FINANCE LIMITED Regd. Off.: B-3/91 ASHOK VIHAR, PHASE II, NEW DELHI, Delhi, India, 110052 CIN: L74899DL1994PLC057107

Email: investor_gdl.1995@yahoo.com PUBLIC NOTICE In compliance with the Para 5 of Notification No. DNBR. (PD) 029/CGM (CDS)-2015 issued by Reserve Bank of India on July 09, 2015. Notice is hereby given that the shareholders of GDL LEASING AND FINANCE LIMITED, a company incorporated under the

companies Act, 1956/2013 and Registered with Reserve Bank of India vide Certificate Number B-14.01346 as a Non Deposit taking Non-Banking Finance Company, with its Registered office situated at B-3/91 ASHOK VIHAR, PHASE II, NEW DELHUndia, 110052 is intended to transfer the ownership and control of the company through the sale of shares to 1. Mr. Prem Kumar Jain S/o Mr. Champa Lal Jain 2. Mr. Ashish Jain S/o Mr. Prem Kumar Jain 3.Mr. Mohit Jain S/o Mr. Prem Kumar jain. The new directors to be appointed are Mr. Prem Kumar Jain and Mr. Satyanaryana Murty Tantravahi and Mr. Ashish Jain, the resigning directors are 1. TANYA MAKHIJANI and 2. DEEPAK KUMAR GANGWANI and 3. SANGEETA GANGWANI 4. AJAY KUMAR KALRA and company Secretary 5 NITI TAHEEM., all by occupation, Business will take ownership and control of GDL LEASING AND FINANCE LIMITED. Therefore, for the transfer is to scale up, expand and diversify the business activity. The above Notice is being given pursuant to RBI Circular DNBR, (PD) CC, No.065/03.10.001/2015-16 dated July, 09,2015 and other relevant Regulations. The company has already obtained the prior approval for change of Management from RBI. Delhi vide letter No. PV(N.D) S378/NBFC-BL/05.07.037/2023-24 DATED 06/11/2023.

Any clarification / Objection in this regard may be

addressed to Department of Non-Banking Supervision,

Reserve Bank of India, 6, Sansad Marg, Delhi 110001

within 30 days from the date of publication of this

notice stating therein the nature of interest and grounds

of objection. This public Notice is being issued jointly by the Company and the above-mentioned Acquirers. For GDL LEASING AND FINANCE LIMITED DEEPAK KUMAR GANGWANI EXISTING DIRECTOR DIN: 00761959

PATBACK BUSINESS LIMITED

CIN: L74999DL1984PLC018747

Regd Off: Shop No. 325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Dellhi-110085 | Ph No: 011-27860681 Email id: crazypricingdel@gmail.com | Website: www.patback.in

Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results

For the Quarter and half year ended September 30, 2023

			NAME AND DESCRIPTION OF THE PARTY.	(₹ in Lakh)
SI No.	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Half Year Ended
		30/09/2023	30/09/2022	30/09/2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1.	Total income from operations	373.65	32.21	375.83
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	5075765255	150/90/68/90	808866
	Exceptional and/or Extraordinary items)	3.54	27.41	(1.54)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax	07850	37365411	08000000
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.54	27.41	(1.54)
43	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after		S\$4000000	11.000
8	Exceptional and/or Extraordinary items)	3.54	21.32	(1.54)
5.	Total Comprehensive Income for the period	PARACT.	CEROL	(1.50)
*	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)			
	and other Comprehensive Income (after tax)	3.54	21.32	(1.54)
6.	Equity Share Capital	24.80	24.80	24.80
7.	PER MANUSCONICA SELECTION OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF	24.00	24.00	24.00
	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Release Short of province as a	73.14	8.99	73.14
	in the Audited Balance Sheet of previous year)	13:14	0.99	73.14
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)			
	(for continuing and discontinued operations) -	2000022	20220	7775572239
	1. Basic :	1.43	8.59	(0.62)
	2. Diluted :	1,43	8.59	(0.62)

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulrements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results are available on the website of the Company i.e (www.patback.in) and website of the stock Exchange(s) (www.msei.in). The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 07th Nov. 2023.

 The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind -as rules (As amended). For and on behalf of the Board of Directors of Patback Business Limited

(प्रति शेयर डेटा छोड़कर आकड़े लाख

Date: 07.11.2023 Place: New Delhi

Pawan Kumar Mittal (Director) DIN: 00749265

इन्टेग्रा एशेन्सिया लिमिटेड

आर्कोटेक लिमिटेड CIN: L34300HR1981PLC012151

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि- 18.11.2023 और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि- 18.11.2023 - शाम 5.00 बजे तक है ।

वाहन विवरण

महिंद्रा अर्थ मास्टर एसएक्स डीआई टेक

एक्सकैवेटर

चेसिस नंबर:

चेसिस नंबर

इंजन संख्या

D13A0807382

MDZAM2EFCJ6E49600

रजि. नंबर: UK08CB0204

MBHCZC03SKJ489484

इंजन संख्या—NJA5WAE0142

मारुति स्विपट वीडीआई (डीजल)

पंजीकरण संख्या UK08AV7173

वाहन का विवरण

देनदारियां

₹. 14,24,563.93

(रूपये चोदह लाख चौबीस हजार

पांच सौ तिरसठ और तिरानवे पैसा

मात्र) 15.08.2021 को+ ब्याज 17.

07.2021 से+ व्यय और लागत --

वसूली 15.08.2021

₹. 4,77,161.46

(रूपये चार लाख सुतहतूर हजार

एक सौ इकसठ और छियालीस

पैसे मात्र) 01.05.2023 को + ब्याज

13.04.2023 + व्यय और लागत — वसूली दिनांक 01.05.2023 से (यदि कोई हो)

ई-नीलामी के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी हेत् कृपया बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com/www.indianbankseauction.com

में दिये लिंक "E-Auction" पर जाएं अथवा सम्पबन्धित शाखाओं से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान सम्पर्क कर सकते है।

पंजी. कार्यालय : 181, सेक्टर-3, औद्योगिक विकास केंद्र, बावल, जिला-रेवाडी, हरियाणा 123501 वेबसाइट : www.arcotech.in, ईमेलः contact@arcotech.in दूरमाषः 0128-4264160 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार (प्रति शेयर आय को छोडकर रु. लाख में राशि)

Canara Bank

(A Government of India Undertaking)

उधारकर्ता / शाखा

/डीपी कोड

मेसर्स महादेव

(हरिद्वार एसएमई

श्री विनय शील

पाहवा पुत्र श्री

ज्वालापुर | 5097

रविशंकर

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः 07.11.2023

हरिद्वार

इंटरप्राइजेज

5994)

क्रम सं.	विवरण	तिमाही समाप्त 30.09.2023 अनंकेक्षित	तिमाही समाप्त 30.09.2022 अनंकेक्षित	वर्ष समाप्त 31.03.2023 अंकेक्षित
1.	परिचालनों के कुल आय (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00
2.	अवधि के लिए सुद्ध लाम / (हानि) (विशिष्ट और या असाधारण मदौ तथा कर से पूर्व)	(842.89)	(846.81)	(12014.99)
	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण गर्दो के बाद)	(842.89)	(846.81)	(12014.99)
	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के बाद)	(842.89)	(846.81)	(8215.73)
5.	अवधि हेतु कुल य्यापक आय (अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को मिलाकर)	(842.89)	(846.81)	(8215.37)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	2100.00	2100.00	2100.00
82	प्रति शेयर आय (रु.2 / — प्रत्येक) क) मूल (रु.) : ख) तरल (रु.):	(0.80) (0.80)	(0.81) (0.81)	(7.82) (7.82)

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।

2- उपरोक्त विवरण सेवी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही और अर्ध-वार्षिक वितीय परिणामों के विस्तृत प्रारुप का एक उद्धारण है। तिमाही और अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा कम्पनी की वेबासाइट www.arcotech.in पर भी उपलब्ध हैं। निदेशक मंडल के आदेश से

आर्कोटेक लिमिटेड के लिए हस्ता /-आरएन पटनायक पूर्णकालिक निदेशक Din: 01189370

IndoSolar Limited

CIN: L18101DL2005PLC134879 E-mail: secretarial@waaree.com | Website: www.indosolar.co.in | Telefax No :+91 -120 - 4762500

Regd Office: C-12, Friends Colony (East), New Delhi - 110065. India

Sr.	Particulars		Quarter End	ed	Half yea	Year Ended	
No.	Patticulars	30-Sep-23	30-Jun-23	The state of the s	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1 2	Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period from ordinary activities (Before tax, Exceptional and /or	3.83	5.79	81.11	9.62	81.40	113.09
3	Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax	(320.77)	(239.25)	(64.49)	(560.01)	(132.43)	(621.62)
4	(after Exceptional and /or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax	(320.77)	(239.25)	(64.49)	(560.01)	1,09,024.68	1,08,140.68
5	(after Exceptional and /or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [(comprising profit or (loss) for the period	(320.77)	(239.25)	(64.49)	(560.01)	1,09,024.68	1,08,117.04
85	(after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	(320.77)	(239.25)	(64.49)	(560.01)	1,09,024,68	1,08,117.04
6	Equity Share Capital (Face Value RS. 10/- per share)	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of	4,100.37	4,100.37	4,160.37	4,160.37	4,100.37	4,100.37
.	previous year.	(4,052.76)	(1,49,216.15)	(1,49,216.15)	(4,052.76)	(1,49,216.15)	(4,052.78)
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (not annualised for the quarter and year ended)						
	(a) Basio(in Rs.)	(0.77)	(0.58)	(0.16)	(1.35)	262.06	178.36
	(b) Diluted(in Rs.)	(0.77)	(0.58)	(0.16)	(1.35)	262.06	178.36

The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results for the guarter ended and half year ended September 30, 2023 filed with the stock exhanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the unaudited Financial Result quarter ended and half year ended September 30,2023 is available on www.bseindia.com and www.nseindia.com and the same is also available on the website of the Company viz www.indosolar.co.in

The above unaudited financial results of the company for the quarter ended and half year ended 30th September 2023 have been reviewed by the audit committee and taken on record approved by the Board of Directors as its meeting held on 6th November 2023.

The above result are in compliant with Indian Accounting Standard (Ind AS) notified by the ministry of Corporate For IndoSolar Limited

Hitesh C. Doshi DIN: 00293668 Place: Mumbai Date: November 06, 2023

प्रोग्नेसिव फिनलीज लिमिटेड रजि. कार्यालयः 500, ई फ्लोर, आईटीएल ट्विन टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 सीआईएन: L65910DL1995PLC064310 ईमेलः info@progressivefinlease.in वेबसाइटः www.progressivefinlease.in

29वीं एजीएम, ई-वोटिंग और बक क्लोजर की सचना

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 30 नवंबर, 2023 को दोपहर 12:00 बजे (भारतीय मानक समय) 367, कोहाट एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 पर. एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी। । कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ 29वीं एजीएम की सचना इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन सदस्यों को भेजी है जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट और डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम के नोटिस की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के माध्यम से समाप्त कर दिया गय है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2022–2023, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 29वीं एजीएम का नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण शामिल है, कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। www.msei.in इसकी एक प्रति नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रासंगिक प्रावधानों और अन्य लाग प्रावधानों व अनुपालन में, कंपनी एजीएम से पहले और साथ ही एजीएम के दौरान किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग की स्विधा प्रदान कर रही है। एनएसडीएल माध्यम से एजीएम, विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग 27 नवंबर, 2023 को सुबह 9 बजे शुरू होगी और 29 नवंबर, 2023 को शाम 5 बज समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग लिए अक्षम कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों का मतदान अधिकार 23 नवंबर 2023 ('कट—ऑफ तिथि') को कंपनी की भूगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी में उन हिस्से के अनुपात में होगा। कोई भी व्यक्ति जो शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, व evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगिन-आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। और एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए टोल फ्री नंबर

आगे सूचना दी गई है कि अधिनियम की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमे हे अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 24 नवंबर, 2023 से 30 नवंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। 29वीं एजीएम का उद्देश्य. ई—मेल पते का पंजीकरणः जिन सदस्यों (भौतिक और डीमैट धारक) ने अभी तक अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे पदवि/चतवहतमेपअमपिदसमेंमण्पद पर कंपनी क एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने औ रिमोट ई–वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए ईमेल पते औ

> प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड के लिए हस्ता /

स्थानः दिल्ली

(पूर्व में इन्टेग्रा गार्मेन्ट्स एंड टेक्स्टाइल्स लिमिटेड) CIN: L74110DL2007PLC396238 पंजी. कार्या.: 902, 9वाँ तल, अगरवाल सायबर प्लाजा-1, नेताजी सुभाष प्लेस, नार्थ वेस्ट, नई दिल्ली-110034, भारत

NEW DELHI

30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाहा एवं छमाहों के लिये अनकक्षित वित्ताय परिणामी का विवरण

- 10				स्टैण्ड	इएलॉन					सम	कित		
क्रम	विवरण		समाप्त तिमाही	j	समाप्त	छमाही	समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त	छमाही	समाप्त वर्ष
सं.	1.44(.4)	30 सित. 23			0.0			9	200			30 सित. 22	
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
1	कुल आय	7,475.67	5,639.91	5,940.55	13,115.58	11,537.01	24,550.15	7,475.67	5,639.91	5,940.55	13,115.58	11,537.01	24,550.15
2	कुल व्यय	6,496.86	5,462.93	5,730.35	11,959.79	11,268.49	23,832.65	6,496.86	5,462.93	5,730.35	11,959.79	11,268.49	23,832.65
3	विशिष्ट मदीं तथा कर से पूर्व लाभ	978.81	176.98	210.20	1,155.79	268.52	717.50	978.81	176.98	210.20	1,155.79	268.52	717.50
4	विशिष्ट मदों	-0.00		5.50	-0.00	5.50		1.34	6.93	11.18	8.27	11.18	6.20
5	कर से पूर्व लाभ/(हानि)	978.82	176.98	204.70	1,155.80	263.02	717.50	980.16	183.91	215.88	1,164.07	274.20	723.70
6	कुल कर व्यय	225.28	65.61		290.89		57.03	227.36	65.61		292.97	-	57.03
7	अवधि के लिये लाभ/(हानि)	753.53	111.37	204.70	864.90	263.02	660.48	752.79	118.30	215.88	871.09	274.20	666.67
8	अवधि के लिये कुल व्यापक आय	802.67	111.37	204.70	914.04	263.02	660.48	801.93	118.30	215.88	920.23	274.20	666.67
9	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य)	4,570.33	4,570.33	3,856.82	4,570.33	3,856.82	4,570.33	4,570.33	4,570.33	3,856.82	4,570.33	3,856.82	4,570.33
10	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर अन्य इक्विटी	6,596.14	3,075.72	-1,627.01	6,596.14	-1,627.01	2,964.35	6,608.53	3,082.65	-1,615.83	6,608.53	-1,615.83	2,970.55
11	आय प्रति इक्विटी शेयर (मूल एवं तरल)	0.19	0.02	0.05	0.19	0.07	0.14	0.19	0.03	0.06	0.19	0.07	0.15

1 . कंपनी के समेकित वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत संबंधित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंड एएस के अनुसार तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनसार तैयार किया गया है।

2. कंपनी के परिणाम निवेशकों के लिए www.integraessentia.com, www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

कृते इन्टेग्रा एशेन्सिया लिमिटेड विशेष गुप्ता

प्रबंध निदेशक

DIN: 00255689

SRM ENERGY LIMITED Regd. Office: 21, Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi 110057

CIN: L17100DL1985PLC303047 Tel No. 011-41403205 Website: www.srmenergy.in Email: info@srmenergy.in Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Results for the Quarter and Half Year ended 30/09/2023 (₹ in lac) Standalone Consolidated Quarter Half Year Half Year Quarter Quarter Quarter Half Year Half Year Quarter **Particulars** ending endina No. ending (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) 30/09/2023 30/06/2023 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2022 31/03/2023 30/09/2023 30/06/2023 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2022 31/03/2023 0.27 2.18 0.73 1.91 1.87 4.32 Other Income Net Profit / (Loss) for the period (before Tax. (7.45)(20.37)(18.84)(38.15)Exceptional and/or Extraordinary Items) (10.50)(9.87)(35.77)(17.86)(101.03)(56.02)(121.01)(227.42)Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) (10.50)(9.87)(7.45)(20.37)(18.84)(35.77)(38.15)(101.03)(56.02)(121.01)(227.42)Net Profit / (Loss) for the period after Tax (17.86)(9.87)(7.45)(20.37)(18.84)(35.77)(38.15)(101.03)(56.02)(121.01)(227.42)(after Exceptional and/or Extraordinary Items) (10.50)Total comprehensive income for the period (Comprehensive Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) (10.50)(9.87)(7.45)(20.37)(18.84)(35.77)(38.15)(17.86)(101.03)(56.02)(121.01)(227.42)Paid up Equity Share Capital (Face value of 906.00 906.00 906.00 906.00 906.00 906.00 906,00 906.00 906.00 906.00 906.00 906.00 Rs. 10/- each) (5.434.43)Other equity (1.238.77)Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-(1.34) (1.34)

2. Diluted

Basic

a) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the guarter and half year ended 30th September, 2023 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results is available on the stock exchange website www.bseindia.com and on the company website

(0.21)

b) The above Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2023 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 07, 2023.

(0.22)

(0.08)

(0.12)

For and On behalf of Board

Sharad Rastogi

Din: 09828931

Whole Time Director

(2.51)

Place: New Delhi Date: Nov 07, 2023

1

RAUNAO GEARS

आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: १५वीं मंजिल, इरोस कॉरपोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - ११००१९ (भारत) दूरभाष नं.: 011-66155129 | फैक्स नंबर: 0120-4588513 ईमेल: Investor@racigeartech.com | वेबसाइट: www.racigeartech.com

CIN: L34300DL1983PLC016136 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

(ईपीएस को छोड़कर ₹ लाख												
विवरण		कंसोर्	लेडेटेड		स्टैंडअलोन							
	समाप्त तिमाही 30.09.2023	समाप्त तिमाही 30.09.2022	वर्ष से आज तक आकड़ें 30.09.2023	समाप्त पूर्व वर्ष 31.03.2023	समाप्त तिमाही 30.09.2023	समाप्त तिमाही 30.09.2022	वर्ष से आज तक आकड़ें 30.09.2023	समाप्त पूर्व वर्ष 31.03.2023 (अंकेक्षित)				
										(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)
परिचालमों से कुल आय	103.14	90.21	192.76	367.34	103.14	90.21	192.76		367.34			
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व)	13.67	13.16	25.32	51.42	13.62	13.15	25.27	51.33				
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद)	13.67	13.16	25.32	51.42	13.62	13.15	25.27	51.33				
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हामी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद)	10.21	9.87	18.97	37.43	10.20	9.86	18.98	37.45				
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	10.15	9.73	18.83	37.15	10.13	9.74	18.84	37.16				
इक्विटी शेयर पूंजी	1078.16	1078.16	1078.16	1078.16	1078.16	1078.16	1078.16	1078.16				
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई है	-	*	-	15669.72	*	×	-	15670.44				
आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) मूल तथा तरल	9.47	9.15	17.59	34.72	9.46	9.15	17.60	34.74				

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, २०१५ के विनियमन ३३ तथा सेबी सर्क्यूलर CIR/CFD/FAC/62/2016 तिथि ५ जुलाई, २०१६ के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड में दाखिल की गई 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। अनअंकेक्षित स्टैण्डएलॉन एवं कंसोलिडेटेड तिमाही के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी को वेबसाईट अर्थात www.raclgeartech.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अथित www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

2 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के विस्तृत अनअंकेक्षित स्टेंडअलोन एवं कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों तथा इस सारांश की "सीमित समीक्षा" कमिटी द्वारा की गई तथा 07 नवम्बर, 2023 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गए तथा 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की कंपनी

के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा ऑंडिट किया गया है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड ग्रशरण सिंह अध्यक्ष व प्रबंध निदेषक

Place: New Delhi.

Date: 07th November, 2023

(0.42)

(0.42)

(0.20)

(1.12)

(0.62)

(0.39)

SALORA

CIN: L74899DL1968PLC004962

Regd. office: D-13/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020. Tel. No.: 011 - 35008342 | Email: Info@salora.com | Visit us at: www.salora.com

SALORA INTERNATIONAL LIMITED

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

		Quarter Ended		Six Month	Year Ended		
Particulars	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
Total Income from operations	4,318.58	3,580.06	4,694.38	7,898.64	5,748.90	11,628.74	
Profit/(loss) before tax (including exceptional item)	(56.80)	(128.07)	(85.90)	(184.87)	(184.21)	(1,184.47)	
Net profit / (loss) for the period after tax	(44.01)	(95.97)	(61.19)	(139.98)	(135.10)	(896.94)	
Total comprehensive income (comprising profit / (loss) (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(45.90)	(97.86)	(61.92)	(143.77)	(136.57)	(904.51)	
Paid-up Equity Share Capital	880.73	880.73	880.73	880.73	880.73	880.73	
Reserves as shown in the Balance Sheet	(2)	8-	12	12	24	4,967.32	
Earning per Share (of Rs. 10/- each)							
Basic & diluted earning per share (before exceptional items)	(0.50)	(1.09)	(0.69)	(1.59)	(1.53)	(3.58)	
Basic & diluted earning per share (after exceptional items)	(0.50)	(1.09)	(0.69)	(1.59)	(1.53)	(10.18)	

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved thereafter by the Board of Directors in the meeting held on 07 November 2023 & these results have been reviewed by the Statutory Auditors of the company.

2. The SLP on merits with the Honourable Supreme Court and writ petition in High Court of Delhi are still pending for disposal and contingent liability against this matter shall stand as it is. However, recently two of similar nature of cases has been decided in the favour of the appellant by the CESTAT and Honourable Supreme Court.

Deferred tax assets Rs.2154.50 lacs as at 30th September, 2023 is expected to be realized, as the company strongly believes that it has reasonably certainty of realization. The company has enhanced its product portfolio and the new business strategy of deeper penetration, greater operational efficiency, thereby the company expects to start absorbing the losses gradually. Moreover there are no brought forward losses under the Income Tax Act, which are expiring during the current financial year as well as in the next financial year.

These unaudited financial results can be assessed on the company's website at www.salora.com and also on the Stock Exchange website at www.bseindia.com

In accordance with IND AS-108 "Operating Segment", the company has only one reportable segment i.e " Consumer Electronic Division".

5. The figures for the corresponding previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary, to make them comparable

(GOPAL SITARAM JIWARAJKA) **CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR**

www.readwhere.com

मोट्स :

स्थान : नोएडा

दिनांक : ०७ नवम्बर, २०२३

प्रथम तल, निकट द्वारका स्टोर, देहरादून-248001

शाखा/खाता

ईएमडी के लिए नम्बर

केनरा बैंक, हरिद्वार एसएमई

खाते का नाम - केनरा बैंक

खाता संख्या - 209272434

आईएफएससी-CNRB0005994

शाखा संपर्क फोन 9456591195

मेल: cb5994@canarabank-com

केनरा बैंक, हरिद्वार, ज्वालापर ।

खाते का नाम – केनरा बैंक

खाता संख्या - 209272434

आईएफएससी-CNRB0005097

शाखा संपर्क फोन 9456591083

मेल: cb5097@canarabank-com

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

ई.सी. रोड, देहरादून, आईडीए टॉवर,

Email: roddn2rec@canarabank.com

5

(रूपये में)

8,40,000 / -

(रुपए आठ

लाख चालीस

हजार मात्र)

₹.

4,00,000 / -

(केवल चार

लाख रूपये)

आरक्षित मृल्य ईएमडी राशि

(रूपये में)

(रुपये चौरासी

हजार मात्र)

(चालीस हजार

रूपये मात्र)

₹. 84,000 /

विक्री सुचना

सार्वजनिक सूचना सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के मामले में एलएलपी (एलएलपी का निगमन) नियम, 2009 के नियम 17 के साथ पठित ई-नीलामी के माध्यम से हाइपोथेकेशन समझौते के तहत वाहनों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना एब्सोल्युट एसेट्स एलएलपी मामले में इसका पेजीकत कार्यालय फ्लैट नंबर 1, प्रॉप नंबर 111/9 केएच नंबर 1238 (पुराना नंबर 1674) नीलामी सूचना इस आशय से दी जाती है कि सुरक्षित ऋणदाता केनरा बँक ने निम्नलिखित वाहन का कब्जा ले लिया है और इसे 20.11.2023 को दोपहर 12.30 बजे से दोपहर 1.30 किशन गढ़, वसंत कुंज, दिल्ली, भारत, बजे तक ऑनलाइन ई-नीलामी आयोजित करके बेचा जाएगा। (बिक्री के समापन तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)। केनरा बैंक, संबंधित शाखाओं में 110070 पर है।

> आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि एब्सोल्यूट एसेट्स एलएलपी देयता भागीदारी अधिनियम 2008 की धारा 13 के तहत रजिस्टार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव के संदर्भ में एलएलपी के पंजीकत कार्यालय में बदलाव की पृष्टि की मांग की जाती है मंगलवार, 07 नवंबर, 2023 को एलएलपी क् अपने पंजीकत कार्यालय को 'दिल्ली राज्य' से "हरियाणा" में बदलने में सक्षम बनाना। कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत

कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो की संभावना है, वह एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करके या डिलीवरी या भेजने का कारण बन सकता है। ए-609,6वीं मंजिल, अर्बन स्क्रायर गोल्फ कोर्स एक्सटेशन में कंपनी रजिस्टार के कार्यालय में उनकी रुचि की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे द्वारा समर्थित उनकी आपत्तियां पंजीकृत डाक द्वारा। रोड 122098 गुडगांव इस नौटिस के प्रकाशन क तारीख से 21 दिनों के भीतर आवेदक एलएलपी को ऊपर बताए गए पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में एक प्रति के साथ भेजें।

> आवेदक के लिए और उसकी ओर से एब्सोल्यूट एसेट्स एलएलपी अभिषेक कुंडू नामित भागीदार डीपीआईएन:- 08593412 दिनांक: 07.11.2023 स्थानः नई दिल्ली

रिमोट ई-वोटिंगः

1800—222—990 पर संपर्क करें।

पैन की स्कैन की गई कॉपी के साथ भेजने का अनुरोध किया जाता है।

बोर्ड की आज्ञानुसार

राजीव जै प्रबंध निदेशक डीआईएनः 03438127 प्रपत्र सं. आइएनसी-26 किंपनी (निगमन) नियम, 2014 के

तिथि: 6 नव. 2023

नियम 30 के अनुसरण में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4)

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए), के मामले में जग्गा स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है:

4617, ग्राउंड फ्लोर, आर्य पुरा सब्जी मंडी,

दिनांकः 07.11.2023

स्थान : दिल्ली

नई दिल्ली - 110007 ्याचिकाकर्ता एतदद्वारा आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि यह कंपनी केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजिकृत कार्यालय को "एनसीटी दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" स्थानांतरित करने के लिए 2 नवंबर, 2023 को आयोजित साधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडन ऑफ एसोसिशन के परिवर्तन की पुष्टि करने की

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करके या एक शपथ पत्र जिसमें अपनी रुचि की प्रकृति और विरोध का आधार बताते हुए एक हलकनामें के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सुबना के प्रकाशन की तारीख से 14 (चौदह दिनों) के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नालिखित

पंजीकृत कार्यालय के पते **4617, ग्राउंड फ्लोर, आर्य** परा सब्जी मंडी नई दिल्ली 110007 में भेजें।

आवेदक के लिए और उनकी ओर से इस्तासर / दिनांक : 08.11.2023 संतोष जग्गा निदेशक